

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 455]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 नवम्बर 2019—कार्तिक 23, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5806-2019-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अयोध्या प्रकरण में निर्णय पारित करने की संभावना होने से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आगर-मालवा द्वारा प्रेषित संलग्न पत्र क्रमांक एसडब्ल्यू-2019-476, दिनांक 06 नवम्बर 2019 में दर्शित समस्त अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 21 के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

**विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित सूची**

**परिशिष्ट "क"**

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा संवर्ग	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं
1	श्री जितेन्द्र सेंगर	अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	जिला पंचायत आगर-मालवा	कार्यपालक वर्ग-2	संपूर्ण आगर नगर के लिए
2	श्री अनमोल टोपो	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपखण्ड आगर (कानड)	जल संसाधन उपखण्ड आगर (कानड)	कार्यपालक वर्ग-2	संपूर्ण आगर नगर के लिए
3	श्री अन्विका श्रीवास्तव	जिला परिवहन अधिकारी	कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी आगर-मालवा	कार्यपालक वर्ग-1	संपूर्ण आगर नगर के लिए
4	श्री बी.एल. दांगी	जिला आबकारी अधिकारी आगर	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी आगर-मालवा	कार्यपालक वर्ग-1	संपूर्ण आगर नगर के लिए
5	श्री एस.जेड अली	खनिज अधिकारी	कार्यालय खनिज विभाग आगर-मालवा	कार्यपालक वर्ग-2	संपूर्ण आगर नगर के लिए
6	श्री आर के दुबे	प्रभारी महाप्रबंधक उद्योग	जिला उद्योग विभाग आगर-मालवा	कार्यपालक वर्ग-2	संपूर्ण आगर नगर के लिए

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा संवर्ग	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं
7	श्री डी.एस.मूजाल्दा	जिला आपूर्ति अधिकारी	जिला आपूर्ति कार्यालय आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-1	संपूर्ण आगर नगर के लिए
8	डॉ निशि सिंह	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग	महिला एवं बाल विकास विभाग आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-1	संपूर्ण आगर नगर के लिए
9	श्री जयदेव गौतम	कार्यपालन यंत्री पीडब्लूडी	लोक निर्माण विभाग आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-1	संपूर्ण आगर नगर के लिए
10	श्री अतर सिंह कन्नौजी	उपसंचालक उद्यान	जिला उद्यानिकी विभाग आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-1	संपूर्ण आगर नगर के लिए
11	श्री अनिल त्रिवेदी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आगर	जनपद पंचायत आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-2	संपूर्ण आगर नगर के लिए
12	श्री आर पी कन्नोरिया	उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-1	संपूर्ण आगर नगर के लिए
13	श्री गोपाल उस्परिया	कार्यपालन यंत्री पी.डब्ल्यू डी पीआईयू	कार्यालय जिला पीआईयू आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-1	संपूर्ण आगर नगर के लिए
14	श्री अनिल तिवारी	परियोजना संचालक आत्मा	परियोजना संचालक आत्मा आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-2	संपूर्ण आगर नगर के लिए

क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा संवर्ग	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं
15	श्री ओ पी विजयवर्गीय	प्रबंधक एम पी एगो	एम पी एगो इण्ड का. डेव्ह. आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-2	संपूर्ण आगर नगर के लिए
16	श्री राजीव शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी पीआईयू	अनुविभागीय अधिकारी पीआईयू	कार्यपालिक वर्ग-2	संपूर्ण आगर नगर के लिए
17	डॉ कोसरवाल	उपसंचालक पशु चिकित्सा	जिला पशु चिकित्सा विभाग आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-1	संपूर्ण आगर नगर के लिए
18	श्री अभिषेक यादव	अनु.अधि. आरईएस आगर	आरईएस आगर	कार्यपालिक वर्ग-2	संपूर्ण आगर नगर के लिए
19	श्री आर पी सेन	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी	कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-1	संपूर्ण आगर नगर के लिए
20	श्री डी एस चौहान	प्रभारी जिला परियोजना समन्वयक	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-2	संपूर्ण आगर नगर के लिए
21	श्री अभिषेक गोखर	सहायक महाप्रबंधक म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण	म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-2	संपूर्ण आगर नगर के लिए
22	श्री दिलीप डोंगरे	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग आगर-मालवा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-1	संपूर्ण आगर नगर के लिए
23	श्री मनोज भास्कर	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग आगर-मालवा	कार्यपालिक वर्ग-1	संपूर्ण आगर नगर के लिए